Whirlpool WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED

REGD OFFICE: A-4, MIDC, RANJANGAON, TALUKA - SHIRUR, DIST. PUNE, MAHARASHTRA. PIN - 412220. CIN: L29191PN1960PLC020063, website: www.whirlpoolindia.com, email: investor_contact@whirlpool.com

Extract of Statement of Unaudited Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2017

(INR in Lacs)

SI No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
140.		30/09/2017	30/09/2017	30/09/2016
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	115,967	277,755	93,891
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	11,400	31,690	8,606
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extra ordinary items#)	11,400	31,690	8,606
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extra ordinary items#)	7,345	20,617	5,872
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,175	20,438	5,907
6	Equity Share Capital	12,687	12,687	12,687
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	Basic:	5.79	16.25	4.63
	Diluted:	5.79	16.25	4.63

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the guarter ended 30th September, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of the results for the quarter ended 30th September, 2017 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.whirlpoolindia.com)

Place: Gurugram

Arvind Uppal Chairman & Executive Director

Date : October 26, 2017

Ad size: 16(w) x 15(h) cms

Expression of Interest (EOI) is hereby invited from interested Resolution Applicants/ Investors/ JV partners / Acquirers for an investment opportunity in the Company, Interested parties are required to submit audited financial statements of last 2 years, Proof of address and PAN Card copy along

Minimum conditions for applicants to approach the Resolution Professional of the Company with such plans are mentioned below.

1. Minimum Net worth (NW) of INR 50cr as on 31 March, 2017.

2. Good financial health and repute with committed funds available for investment.

Information Memorandum may be shared with interested Resolution Applicant after receiving an undertaking as required under Section 29(2) of Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 at the sole discretion of Committee of Creditors. Committee of Creditors shall have the right to reject any bid without giving any reason to the applicant.

For submitting the EOI, or for any further clarifications with regards to inspection, terms and cond and other details, kindly write to vinay@corporateconsultants.in on or before 11th November, 2017

For Jenson & Nicholson (India) Ltd

lace: New Delhi Date: 26th October, 2017

Vinay Talwar Resolution Profes 1, Link Road, Jangpura Extension, New Delhi -110014

- THE PERSON OF					
Date of Opening of Offer	01.11.2017				
Date of Closing of Offer	07.11.2017				
Last Date for payment of consideration	28.11.2017				

III. PROCEDURE FOR SETTLEMENT

The payment of equity shares accepted under the exit offer will be made within fifteen working days from the date of closing of this offer by way of Pay Order/RTGS/NEFT or an other permitted electronic mode of transfer. In case of joint holders, payment will be made in

IV. LIABILITY FOR SETTLEMENT

The Exit offer letter along with form of acceptance shall be dispetched to all the public shareholders of the company. Sh. Sham Sunder Sardana, being the promoter is liable to acquire the shares of Public Shareholders who have not offered their shares under the Exit offer up to a period of One year from the completion of the offer, at the same price as

The Promoters of YAMUNA shall certify to the satisfaction of BSE that appropriate procedure has been followed for providing exit to the public shareholders of the Company. Subsequently, BSE upon satisfaction shall remove the Company from the Dissemination

Sd/- On behalf of Promoter and Promoter Group Date: 27.10.2017 Place: Jagadhri Sham Sunder Sardana

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Directorate Dairy Development Uttarakhand Mangal Parao, Haldwani-263139 (Nainital)

Ref. No.: 2320-21

Date: 25.10.2017

Tender Notice No.: 08/2017-18, Date-25.10.2017

Sealed tenders are invited by the undersigned in two bid system, for SIT&C of Refrigerated/Insulated containers, Glycol based Deep freezer, Insulated milk cans, Refrigerated milk cans, Glycol based PCM cylinders, Bulk Milk coolers, Cattle Manger (पश् चारा नॉद) & Request for proposal for selection of Project Support Consultant for UCDF to its member milk unions, from reputed manufactures/dealers/Tenders/fabricators/ consultants up to 5.0 P.M. on 17.11.2017 in this office, which will be opened on 18.11.2017 at 11.0 A.M. Tender documents may be downloaded from website www.ucdfaanchal.org, www.dairyvikasuttarakhand.org, www.tenders.gov.in Director

Whirlpool WHIRLPOOL INDIA L OF

REGD OFFICE: A-4, MIDC, RANJANGAON, TALUKA - SHIRUR, DIST. PUNE, MAHARASHTRA. PIN - 412220. CIN: L29191PN1960PLC020063, website: www.whirlpoolindia.com, email: investor_contact@whirlpool.com

Extract of Statement of Unaudited Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2017 (IND in Lace)

		optomeor	00, 2011	(INH in Lacs)
SI No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Corresponding 3 months ended in the previous year
		30/09/2017	30/09/2017	30/09/2016
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	115,967	277,755	93,891
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra ordinary items)	11,400	31,690	8,606
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extra ordinary items#)	11,400	31,690	8,606
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extra ordinary items#)	7,345	20,617	5,872
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,175	20,438	5,907
6	Equity Share Capital	12,687	12,687	12,687
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
	Basic:	5.79	16.25	4.63
1 7	Diluted:	5.79	16.25	4.63

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter ended 30th September, 2017 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the results for the quarter ended 30th September, 2017 are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.whirlpoolindia.com)

Place: Gurugram Date : October 26, 2017

Arvind Uppal Chairman & Executive Director

लोंकयता

पुणे दिनांक

क्षेत्र शुक्राचर, १७ अधिकार १०१७ पु

तेलगीच्या मृत्यूनंतरही बनावट मुद्रांक खटल्याची सुनावणी सुरूच राहणार

प्रतिनिधी, पूर्व

कामार्थे (एसवाको) जाता काम्या आने देखें, एकवाको कहा बक्क पुढां प्रकार करा वेदी पुढे अमेक पिताको केदी म्या बना होता.

লা দুৱা মৰুচ স মতিৰ বা আইনিত তক্ত মান্যা অটাৰ অতৰ্ম আমান বিবালাভিয়াক সম্ভাৰত

- चौदा वर्ष खटल्याचे कामकाजः अद्याप अंतिम निकाल नाही
- गुन्हा कबूल न केलेल्या तेरा आरोपींकिरुद्ध खटला

कारण व आते होते. य कारण व्य सुकारणेय मारापेशीय जातिकार प्रकारणकर वेच के रित्य साम सुबार पुरुवास होते. साकारणकीर पुत्रक पिकारी में बेचारी पीर्थीय प्रवास पिकारी में सामीर पीर्थीय प्रवास प्रवास के सामा सिकार कार्या समुद्रा कोच बार के प्रवास कार्या के स्वास के स्वास कार्या के स्वास कार्या के

रक्तान सिरोप न्याच राज्या पुरु राज्य क्यार अस्त अस्त स्वरूप स्था स्वारों, में कि प्रीक्षा अन्य कार्री आर्थियों पूचा करूं करायी त्याँच स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित बंध्ये पेताल सारक्त केरणान्य म्यूट करिन रेट्डॉक्ट नेटवर्डन अपूर्ण करिय रेजानिकद्ध नेत्य तेत बेटियोक दूर पुत्रस संख्या सेत्र कर्कारक पेटियाक दूर नाप्रकारता कर्मार पीनवां स्ट्रान पास नाम रेजां कर पीनवां स्ट्रान स्थाप स्थापकी स त्यं व्यक्तियः राज्येतः काण्याः आहेत्वः बहत्तानं भागमान सुरू

मांते पुता बकुत केल कारे.

- 📕 बंध नार्धन पेटिएको काहून संस्थानमध्ये मोटार प्रशासन्त्रात सार्धी
- मेटाउँव क्वार मुखंक काम के, कम काव स्व २००३ वे सै मुम्स
- 🛮 पुगे पेटियोकपून सुंब्रोत करवाट सुझंकारस व गरवण्यात. व गरे कर्नट क सेंद्रियांक पुनस्त प्रकरणी असूत करीन वेळणी अटकेंद्र
- पुण्यवत् वात उल्लेखन्त । असुन क्यान व्यक्त अस्ति । प्राप्तवत् वात उल्लेखन्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । प्राप्तवत् । तेळनीलव नक्ष्मी प्रसापीत तालवीच नेक्स्मी नाते पुढे आत्नाने स्तरण क स्त्रीत करते स्तरशक्त
- वैव्यं क्यांचे वास्तव केपपुत वे

शिवसेनेच्या उपनेत्या गोन्हे आणि नार्वेकरांवरचा खटला मागे

पूर्व : शत मास्त्रमध्य स्रोपे कुष : शांक का राजनकर प्राचन कोशीन वर्षक पुरस्ता करिश्यानकर रोजा पार्च क्षेत्रण कर रचन्याका के विका केरणा रम्पेक्स की रिक्रम केरे कोगी किंगा करियान के रिक्रम के के सामार्थ कारोजा कारणा को के के सामार्थ कारोजा कारणा को केर सामार्थ कारणा कारणा की राज्य के केर रच्याका प्रस्ता की राज्य के की राज्य कारणा की सामार्थ की राज्य के की रोज की की की सामार्थ कार्य केरी কাল নাঁচ:

সিন্দাৰ্থকৰ দিছত বাৰ

কাল কৰা বিচাৰিক কালকাৰী।

বিভা বিচাৰিক কালকাৰী।

বিভা বিচাৰিক কালকাৰী

কালকাৰী কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকাৰী

কালকালকাৰী

কালকাৰী

কালকালী

কালকালী

কালকালী

কালকালী

কালকালী

কালকালী

কালকালী

কাল

चंचपुरत क्षणाचे साचे संबन्धे



वाहन खरेवीनंतरच्या आरटीओतील

सोळ प्रकारच्या सेवा ऑनलाइन

पुने: प्रीका अपुत्र'न्य अतिहास राजारित को अरोजे सार्वर संस्थे रंगमारी को अदिने वालो परिने स्व एक विकेत्या एक्ट्रा के का निक अस्ता प्रस्ति रेग्यान काम्या किन काम अस्ति काम्या कार्योक्त कार्य काम्या अस्ति कार्योक्त कार्य कार्या कार्या कार्योक्त कार्या कार्या कार्या क्रिकेत कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्योक्त कार्या कार्या कार्या कार्योक्त कार्या कार्या कार्या कार्योक्त कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या प्रवासनाम् एकुण (-० प्रकारमा सेव पुर्वभन्त नासः त्यक्तेत्र ऐकीत सामका च ४६ वेगोना व्यक्तेत्र अवते सम्बद्ध अस्ति स्था नासन पानाच अनेचे प्रक्रिय करूनीय ओनस्या कल्का आले आहे. आह ब का में स्टब्सीय कार्य तरामधी वर्ष व हान करकार काल काल काल सा व कालों केलेक्ट्रान करणे राज्य होता काले. मेल्या एक शिल्पेनाक्ट्रान हिन्दु प्राथित कालक स्वाप्त काला हिन्दु प्राथित काला स्वाप्त कर हिन्दु प्राथित काला स्वाप्त काला स्वाप्त कर स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त करें. या त्या पर पर प्रति वाट में प्रिकानकार काम राजिया प्रतिक अप्रकार के विकास करे तर्मक को त्या की असला प्राप्ता कि ग्लीत को बास सम्बद्धा कि ग्लीत को बास

Whirlsool

महालक्ष्मी एक्स्प्रेसवर दरोडा; चोरट्यांकडून सिग्रल यंत्रणेत बिघाड

- धावत्या रेल्चेत प्रवाशांचे दागिने हिसकावले
- मिरज लोहमार्ग पोलिसांकडे तक्रार दाखल

प्रशास्त्र, एने

पुंच्यीक्षा करित मुख्ये विकासिक्य साराज्ये स्वास्त्रकार चेरावते से ती त राज कालों करत करवाड़ी से ता त पुंचाता करते. चेरावानिक्या त्रमुद्रीवर्गीय प्रचेत्रकी स्थापकारकारित विकास संकोश विकास साराज्ये सारात स्वीको केरि मानाव देशोग मिताहे. उनकार स

भारक रेलीम मिर्गेट उनकार मुख्यून रेलीम मिर्गेट उनकार मुख्यून रेली का जामीन जीनी मिर्गेट कर राज्यों के जीन जामीन जीनी मिर्गेट कर रेली के जीनी मिर्गेट के रेली रेलीम मुख्यून के जी जान के जिल्ह्यून के प्रतिकृति के अपने मिर्गेट रेलीमा के जीनी मिर्गेट के प्रतिकृति के अपने मिर्गेट के प्रतिकृति के उनकार मिर्गेट के प्रतिकृत के जीनी में मिर्गेट के प्रतिकृत के जीनी मिर्गेट के जीनी मिर्गेट

अर्त्साएकचे नवान नाडीत नहते

कार-प्रधानम् वर्षामा बांडिया वर्षाम् वर्षाम् वर्षाम् (वर्षाम् वर्षाम् वर्यम् वर्यम् वर्षाम् वरत्यम् वरत्यम् वरत्यम् वरत्यम् वरत्यम् वरत्यम् वरत्यम् वरत्यम् व

प्रभाविक आपक त्ये व ऐक्ट्राप्टेंगेर आपरेके जाम प्रवादी वर्ष प्राप्टें-रामिक जामी वर्ष प्राप्टें-रामिक जामी अन्य प्राप्टें-स्वित प्रिक्ट्राप्टें के अभिक्यांचे प्राप्टें स्वीत रिक्ट्राप्टें प्राप्टा प्रमुख्य स्वाप्टें के प्राप्टें प्राप्टें प्राप्टें-रामिक प्राप्टें प्राप्टें प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-प्राप्टें-रामिक अपरें प्राप्टें-र्मिक अपरें-रामिक अपरें प्राप्टें-रामिक अपरें-रामिक अपरें

व्हर्लपुल ऑफ इंडिया लिमिटेड


कर्तरक), रिनव केता तनपुर (य. व्यक्तिसरे, नि. तने) चंत्र सम्बद्धाः रोपिक्या जाती, अर्थी प्रशिद्योगिक रोक्या में प्रतिकृत जात्राचे में सीत्री में रिकेश्य में प्रविक्त में प्रविक्त में कि रिकेश ही परमा ज्यानांकी जात्राचारिक होत्या में प्रतिकृत कार्याचारिक कार्याचार में प्रतिकृत कार्याचार कार्याचार कार्याचार कार्याचार में रिकेश मुख्याच्या में सीत्री में प्रतिकृत में सीत्री में प्रतिकृत में सीत्री में प्रतिकृत में सीत्री में मार्थिक मुख्य मार्थिक मार्थिक





र्वेटिकंप्यून का नेक्या र अने होते परिवासकृत कर उपन्य र अग्र तरि स्वित्स कर्न् ते वे बेचना पुरिव कानार आहे जी. त्य बेचनारणी 'जार्जित का, एवर पाजकेश पाजकेस का, एवर पाजकेश क्रिकेत कार अग्र तरिवास आहे क्रिकेत कार अग्र तरिवास कार्योज्य भीरती आहुत वेंद्र वेंद्र पकर वेंद्र अपनेतरी जीते आग्रेत प्रविद्य





DESCRIPTION OF THE PARTY AND PARTY.

अनीवंद रमात अन्यक अवेद प्रत्येकी गोपान

Quote

Your

वार्ताहर, यवत

राज्यातील सर्व विद्यारीटा राज्यातील सर्व विद्यानीता अनुवारिकः महा प्रत्याप्तकपदाच्या विश्वुस काडी वर्षापासून असलेरली उटबच्यात असली आहे. र प्रज्यातील ११ विद्याणीता साहेऽपकरारीच्या सहाविद्यालयातील जवळप प्राच्याप्तकपदाच्या जामा भ्रा चेकळा झाला आहे. मोकाव्य झाला आहे. जर्मा जांगीलक स्थ



emain i sem de companies of an analysis of the companies of the companie

• सर्व कंपन्या

ज्यांच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण आवश्यक आहे अशा व्यक्ती ज्यात अशा आस्थापनांच्या कार्यत भागीदारांचाही समावेश आहे

लक्ष द्याः

प्राप्ती कर अधिनियम, १९६१ च्या अनुच्छेद ४४ एवी य ११५ जेवी अंतर्गत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे आपले प्राप्ती कर विवरणपत्र (ITR) आणि लेखापरीक्षण अहवाल ई-फाईल कर

ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंत

शेवटच्या दिनांकापर्यंत ITR प्रस्तृत न करण्याचे परिणामः

- जाज, दंड व खटल्यास सामीरे जावे लाग् शकते
- समायोगित न केलेले कोणतेही व्यवसायिक तोटे/चंड्यली तोटे पुढे चालू टेवले जाऊ शकत नाहेत

अनुस्केद ४४ एवी अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवाल ई-फाईल न केल्वास रू. १,५० लक्ष पर्वत दंड होऊ शकतो





-



प्राप्तीकर विभाग केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ

-